

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान में मनाये गये हिन्दी दिवस समारोह की रिपोर्ट

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान , कोयम्बतूर में सन 2016-17 के लिये 19 सितम्बर 2016 को हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में सभी कर्मचारियों ने हर्षोल्लास से भाग लिया। इस अवसर पर डॉ.बी.गुरुदेव सिंह, वैज्ञानिक –जी, समूह समन्वयक (अनुसंधान) एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉ.वि.कु.वा.बाचपई, हिन्दी नोडल अधिकारी ने सभी का स्वागत किया। श्री आर.एस.प्रशांत, भा.व.से., निदेशक जी ने हिन्दी के महत्व पर सुन्दर भाषण प्रस्तुत किया। अपने भाषण में उन्होंने भाषा का महत्व बताते हुए कहा कि हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के कई राज्यों में बोली जाती है और जिस एक भाषा को सीख लेने से न सिर्फ सरकारी कामकाज में उपयोगी होगा बल्कि व्यक्तिगत कार्यों में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी को जरूर हिन्दी सीखनी चाहिए और भारत सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए।

हिन्दी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य राजभाषा के प्रति लोगों की रूचि बढ़ाना और उसके महत्व के प्रति जागृत करना ही है। इसी उद्देश्य से हिन्दी दिवस के इस सुअवसर पर *प्रशासनिक शब्दावली एवं अनुवाद प्रतियोगिता, सारांश साफ्टवेयर की सहायता से हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिन्दी वक्तृत्व प्रतियोगिता आदि* प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सभी अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने उमंग-उत्साह से भाग लिया।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अथिति ने प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया और प्रोत्साहित भी किया। उसके उपरांत मुख्य अथिति ने भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रोत्साहन योजनाएँ एवं पिछले छः वर्षों में संस्थान के द्वारा हिन्दी में हुई प्रगति पर सुन्दर भाषण दिया और आगे कहा कि यह हिन्दी कार्यक्रम न सिर्फ राजभाषा समिति का कार्यक्रम है यह सभी कर्मचारियों का कार्यक्रम है इसमें सभी को अपनी रूचि एवं उमंग उत्साह से भाग लेना चाहिये तभी हिन्दी में सरकारी काम-काज पूर्ण रूप से होना संभव हो सकेगा।

फिर निदेशक जी ने मुख्य अथिति को एक सुंदर मोमेन्टो भेंट किया। समारोह का समापन श्रीमती पूंगोदै कृष्णन, हिन्दी अनुवादक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।



सभी का स्वागत करते हुए



निदेशक जी का भाषण



विजेताओं को पुरस्कार देते हुए



मुख्य अथिति का भाषण



सभा में उपस्थित कर्मचारियों